



ऑस्टिन राज्य परिषद जिला १० के लिए

10-1 सामुदायिक केंद्र

जन सुरक्षा निधि का समुदाय में वितरण

ध्येय: यह सुनिश्चित करना कि ऑस्टिन के सभी जिलों की जन सुरक्षा ज़रूरतों का साम्यपूर्ण रूप से समाधान किया जा रहा है। ऑस्टिन पुलिस विभाग के बजट का पुन-आबंटन करके हमारे समुदायों में स्वास्थ्य और सुरक्षा सेवाएँ लागू करना तथा, उन विभेदकारी प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए कदम उठाना जो ऑस्टिन निवासियों की प्रगति में कोई योगदान नहीं दे रहे हैं।

निम्नलिखित नीतियाँ लागू की जाएंगी: 10-1 जिला-स्थित सामुदायिक केंद्र



इन सामुदायिक केंद्रों में निम्नलिखित व्यवस्था होंगी:

- मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति
- घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न पीड़ितों को सहायता
- संपत्ति से निगडित अपराध के जाँचकर्ता
- ईएमएस कर्मचारी
- विपत्ति ग्रस्तों के लिए सेवाएँ
- सभी समुदायों में प्रतिबंध जारी करना तथा शिक्षा के अवसर प्रदान करना
- पुलिस निरीक्षण समुदाय के प्रतिनिधियों का कार्यालय
- वॉक-इन सेवाओं के लिए दैनिक कार्य समय

- इस मॉडल का मुख्य लक्ष्य संसाधनों को इकट्ठा करके उनका विपरिनियोजन करना है
- इस मॉडल में प्रतिबंधों को सजा से महत्वपूर्ण स्थान है
- पुलिस निरीक्षण कार्यालय का प्रसार करते हुए, जिला प्रतिनिधि नियुक्त करना तथा समुदाय के कामों में सहयोग करना
- पूर्वाग्रहों की पहचान करने के लिए नियुक्ति से पहले जांच की आवश्यकता है। इस कारण, इस मॉडल का ध्येय ये सुनिश्चित करना है कि, स्थानीय विभाग द्वारा शहर के उन जन सुरक्षा अधिकारियों को हटाया जा रहा है जो पूर्वाग्रह, असहिष्णुता, या इस तरह के अन्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जिससे जन सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
- यह सुनिश्चित करना कि, सामुदायिक केंद्र उन समुदायों को प्रतिबिंबित करते हैं जिनके लिए वो कार्यरत है।
- सभी सामुदायिक केंद्र कर्मचारियों के लिए मान्यता प्राप्त निहित पूर्वाग्रह और अन्य लैंगिक तथा जातीय समानता के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
- विभिन्न डेटा को एकत्रित करके यह सुनिश्चित करना कि स्थानिक कानून निर्माताओं के पास दीर्घकालीन सुधार करने जितना डेटा उपलब्ध हो।
- यह जानकारी सार्वजनिकरूप से उपलब्ध कराई जाए जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं दोनों के लिए उपयोगी हो।
- सामुदायिक केंद्रों की जांच द्वारा यह सुनिश्चित करना कि वे मानकों को पूरा करने में विफल न हों।

लक्ष्य

10-1 जिला सामुदायिक केंद्रों की स्थापना के साथ, निम्नलिखित स्थापित किया जाएगा:

- लोग अपने समुदाय से जुड़ाव महसूस करे और शहर के संसाधनों तक अधिक पहुंच बना पाए।
- 911 पे कॉल करने वाले समुदाय के सदस्यों के प्रति प्रतिक्रिया संक्षिप्त करना और प्रतिक्रिया सबसे काबिल कर्मचारी द्वारा देके उस प्रतिक्रिया को अधिक सूक्ष्म भेद युक्त करना।
- नगर परिषद के सदस्यों के पास बेहतर जानकारी और सामुदायिक केंद्र होंगे जहां वे बैठकें तथा सामुदायिक मुद्दों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, और हमारे स्थानीय अधिकारियों तथा समुदायों के बीच पारदर्शिता बढ़ा सकते हैं।
- जो लोग पारिवारिक हिंसा या यौन उत्पीड़न के शिकार होते हैं, वे अपने घरों को छोड़ने पर या हमले की रिपोर्ट दर्ज करने पर सुरक्षित महसूस कर सके।
- समुदाय की ज़रूरतों अनुसार सामुदायिक केंद्र स्थानीय गैर-लाभकारी संस्थाओं के साथ काम कर सके।
- सामुदायिक केंद्र हमारी मौजूदा कानून प्रवर्तन की तुलना में सामुदायिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग और अधिक प्रभावी रणनीति के माध्यम से निधीयन को बढ़ाएंगे।
- यह समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाते हुए ऑस्टिन को साथ लाता है।